



SIR SHADILAL ENTERPRISES LIMITED

A *Triveni* Company

CIN: L51909UP1933PLC146675

Website: www.sirshadilal.com, E-mail: shares@ssel.trivenigroup.com

Registered office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida-201 305, Uttar Pradesh

Website: www.sirshadilal.com, E-mail: shares@ssel.trivenigroup.com,

Phone: 01398-250064 Fax: 01398-250032

Date: 05.11.2024

To,
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
MUMBAI – 400 001

SCRIP CODE NO. 532879

Sub: Newspapers advertisement pertaining to Unaudited Financial Results for the Quarter 2 and Six months ended 30.09.2024

Dear Sirs,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, Please find enclosed herewith Clippings of the newspapers viz. The Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) and Dainik Harit Shakti (Hindi) dated 05.11.2024 in which abstract of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter 2 and Six months ended 30.09.2024 were published.

Kindly acknowledge receipt of the same,

Thanking you,

Yours faithfully,
for Sir Shadi Lal Enterprises Limited

(Ajay Kumar Jain)
Company Secretary
M No. FCS5826

Encl.: As above

ROAD TO WHITE HOUSE

Final messages of Harris & Trump as seen through ads



JONATHAN WEISMAN
Harrisburg (Pennsylvania),
November 4

THE CLOSING ARGUMENTS have been delivered by former President Donald J. Trump in New York's Madison Square Garden and by Vice President Kamala Harris on the Ellipse in Washington, with the White House as her backdrop.

But in the final days of the tightly drawn presidential campaign, the last messages to voters in the seven swing states that will decide the election continue to flood televisions, computers and smartphones.

From Harris and her supporters, those messages cover a mix of kitchen-table issues on the economy and taxes, the fate of legal abortion and the dangers posed by a return of Trump to the White House.

For Trump and his allies, one message dominates: Defeating Harris is a matter of life and death. Your death, to be specific.

"How will your family survive another four years if you may not be able to survive the night?" asks one ad from the super PAC Right for America. It received a \$7 million run in October. An analysis by *The New York Times* and the tracking firm AdImpact of the largest advertising purchases in the final weeks of the campaign found clear patterns. The five largest purchases from four corners — the Trump campaign, the Harris campaign and the biggest political action committees supporting each of them — show distinct tactics. Harris and her supporters communicate multiple messages, while Trump and his supporters mainly stick to variations on the theme of fear. The Harris campaign and attendant PACs tend to use the candidate's voice and speeches, trusting that she has attained a level of trust and likability that can win over the few undecided voters.

Ads promoting Trump's campaign rarely use his voice, relying instead on narrators. And in the final days of the campaign, both candidates will air much more sweeping ads that invoke patriotism — with-

out mentioning the opposition by name. Here is a breakdown of the campaigns' closing issues and themes, as seen by voters in the key battlegrounds.

Fear
The Harris campaign and its allies have relatively modest advertising runs that use former aides and generals who served under Trump to frame him as "too big a risk for America" and "unhinged, unstable and unchecked."

But the former president and his supporting groups are in a different realm of horror. In advertisement after advertisement, supposedly dangerous illegal immigrants flooding over the border are shown in grainy or tinted images. Frightening mug shots accompany the darkest of warnings, "Americans will continue to lose their lives," intones one ad from Make America Great Again, a \$9.2 million buy that ran 4,101 times over 11 days in late October. In an even larger ad blitz, 5,914 airings in just six late-October days for



Former US President Donald Trump speaks during a campaign event in North Carolina, on Monday

REUTERS
November 4

DANIELLE TRENNEY, a 39-year-old project manager from western Pennsylvania, is so anxious about the US presidential election on Tuesday that she decided to put up a Christmas tree early this year to take her family's mind off things.

Trenney said she knew of other families doing the same in Bellevue, a Pittsburgh suburb and an electoral hotbed prized by both Democrat Kamala Harris and Republican Donald Trump, rivals in a race that analysts say will go down to the wire.

"Just trying to pacify the anxiety," said Trenney, who voted for Harris ahead of Tuesday's Election Day. "Anything and everything to distract from, 'Oh my God, what's going to happen?'"

Sitting on a park bench nearby was Jennifer Bunecke, 68 and a retired graphic designer who plans to vote for Trump. Bunecke is so sick of the acrimony, the incessant calls from pollsters and the campaign ads bombarding her in the battleground state of

THE FINAL SHOWDOWN



■ In final days of the presidential campaign, the last messages to voters in the 'seven swing states' that will decide the election continue to flood televisions, computers, smartphones

■ Harris and her supporters communicate multiple messages, while Trump and his supporters mainly stick to variations on the theme of fear

■ Ads promoting Trump's campaign rarely use his voice, relying instead on narrators

■ In the largest Republican ad buy of the final weeks, MAGA spent \$23 mn for 8,560 airings of an ad that tells of a little girl who was raped and buried alive, yet Kamala allowed convicts to live near schools, parks

■ "Trump wants to give tax breaks to billionaires," says a working lady who supports Harris. "But Harris has plans to help us. She's going to crack down on price gouging and cut taxes for people like me", she added

\$19.3 million, the same group said that "innocent victims" of Harris's "border crisis" were "bludgeoned, raped, strangled, stabbed, shot and murdered."

"Kamala created the border crisis," the ad asserts. "She won't fix it." In the largest Republican ad buy of the final weeks, MAGA has spent nearly \$23 million for 8,560 airings of an ad that tells of "a little girl" who "was raped and buried alive," yet "Kamala allowed convicted sex offenders to live near schools and parks."

Taxes and the economy
Polls have consistently shown that voters are mainly concerned with the economy and inflation, issues that have been seen as Harris' weaknesses and that Democrats have been trying to address. Future Forward, the main super PAC supporting the vice president, has spent by far its largest amount, more than \$52 million, to air two ads focused mainly on kitchen-table issues.

The largest of these spots, with 33,000 airings, features a

man who identifies himself as a lifelong Republican, lamenting the tariff that Trump has promised to impose on all imported goods — "I'll make everything more expensive for regular people all while giving tax breaks to billionaires" — before praising Harris's promise to cut taxes for the middle class.

Just behind that, at \$25.4 million in the last two weeks of October, is a spot that features a woman, Rebecca F., a one-time Trump voter. She is watching a tablet as Trump tells his audience at a fund-raiser that they are "rich as hell" and will get a tax cut. "Donald Trump wants to give tax breaks to billionaires," she says in 28,536 airings, "but Kamala Harris has plans to help us. She's going to crack down on price gouging and cut taxes for working people like me."

Right for America is running one positive economic ad, in English and Spanish, extolling Trump for his promise to eliminate taxes on tips, Social Security and overtime. "The people who work overtime are among the hardest working citizens in our country, and for too long, no one in Washington has been looking out for them," Trump intones in a rare use of his voice in the ads. At around \$7 million, it is toward the bottom of the largest late buys.

Another ad, with about \$7.7 million behind it for the closing weeks, hits Harris hard on inflation. Financed by Restoration PAC, the advertisement appears to be aimed at Black voters. "They are killing us without killing us," a Black woman near tears asserts.

Abortion
Since the Supreme Court's decision to overturn *Roe v. Wade* in 2022, voters have been rewarding Democrats, in midterm and special elections, for standing by the right to an abortion. The Harris campaign is pressing that advantage. Its second and third largest closing ad buys — \$17.5 million and more than 47,600 airings in the last two weeks of October — are on abortion rights.

The largest airing, shown nearly 32,000 times, is the return of a young woman who helped Gov. Andy Beshear of Kentucky win re-election last year with her wrenching story of being sexually abused and impregnated at age 12. —NYT

D Mart
AVENUE SUPERMARTS LIMITED
Registered Office: Anjaneya CHS Limited, Orchard Avenue, Opp. Hiranandani Foundation School, Powai, Mumbai - 400 076
Corporate Office: 8-72/72A, Wagale Industrial Estate, Road No. 33, Kamgar Hospital Road, Thane - 400604
Tel No.: +91-22-3340 0590, +91-22-7123 0500
Website: www.dmartindia.com | Email: investorrelations@dmartindia.com
CIN: L5190DM1200PLC126473

POSTAL BALLOT NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and 09/2024 dated 19th September, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has sent e-mails to all the Members on Monday, 4th November, 2024 containing Postal Ballot Notice dated 16th October, 2024 along with the explanatory statement seeking their approval for appointment of Mr. Bhaskaran N (DIN: 10808853), Chief Operating Officer - Retail as Whole-time Director of the Company for a period of two years commencing from 17th October, 2024, by remote e-voting process ("e-voting").

In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent only by e-mail to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names appear in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Wednesday, 30th October, 2024 ("Cut-off date").

The Company has engaged the services of National Securities Depositories Limited (NSDL) to provide e-voting facility. The instructions for e-voting are provided in the Postal Ballot Notice.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.dmartindia.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

The e-voting period commences from **Tuesday, 5th November, 2024, at 9.00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, 4th December, 2024 5.00 P.M. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the total paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 30th October, 2024.

The Result of the Postal Ballot will be declared by the Chairman or a person duly authorized by him on or before Friday, 6th December, 2024. The said Results along with the Scrutinizer's Report shall be uploaded on the Company's website www.dmartindia.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. The results will also be communicated to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE), where the Equity Shares of the Company are listed.

In case of any queries, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President- NSDL at evoting@nsdl.com.

Place: Thane
Date: 4th November, 2024

For Avenue Supermarts Limited
Mrs. Ashu Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Kiwis: Small in number, big in achievements

SANDIP G
Mumbai, November 4

A WORM IN the Tasman Sea or a half-eaten mutton chop in the Pacific, as a comedian in a tourism video featuring former prime minister Jacinda Ardern puts it. The inventors of the egg-beater, the country where the Lord of the Rings trilogy was filmed. New Zealand can both baffle and surprise.

It is a country with a population of 5 million, spread out over a lakh square miles. Its population is one fourth that of Mumbai; its span roughly as much as Uttar Pradesh.

Yet, size and strength have not prevented them from enjoying sporting success for several decades. On Sunday, its cricket team consigned India — a country of 148 millions as head coach Gautam Gambhir frequently asserts — to its first series whitewash at home. It had earlier vanquished them to claim the World Test Championship mace. New Zealand have reached more semi-finals in 50-over World Cups than any other team. All with a talent depth of one lakh registered cricketers. India, Australia and England have four times the number.

It's a classic case of sporting exceptionalism. Or as Daryll Mitchell put it "New Zealand doing New Zealand things." The county's success across different sports is wildly disproportionate to its population. In rugby union, the All Blacks are the undisputed powerhouse, having won 80% of their games this century.

At the Paris Olympics, they finished 11th on the table with 10 gold medals. In their last of the two football World Cup appearances (1982 and 2010), they returned undefeated and held then world champions Italy to a draw. The White Ferns were crowned world T20 champions too. New Zealand have stamped their footprints in most sports in the world.

Attention to detail
There's also pragmatic planning and careful funding. For instance, athletics received a significant funding boost at the end of 2020 from High-Performance Sport New Zealand, lifting it back into Tier 1, alongside rowing, sailing and cycling. Suddenly there is



New Zealand players during day three of third Test cricket match between India and New Zealand at Wankhede Stadium, in Mumbai, on Sunday

an outdoors lifestyle clearly plays a role. Great emphasis at schools is placed on the ability to run, jump and throw. More than half of children will represent their school in a competitive sport in a single year. For instance, Kane Williamson featured in a host of sports, before embracing cricket seriously. Tim Southey had almost picked rugby over cricket.

But there are more cultural, historical and geographical reasons too. Says John Syms, a social science teacher at the Tauranga Intermediate College: "As a nation, we were colonised, and it was a way for us in our isolation to show the world that we could be successful, we could beat the mother country, England."

The nursery of New Zealand cricket is the Hawke's Bay district, near the southern tip of North Island. There's no New Zealand cricketer in the last 30 years who has not attended the Hawke's Bay cricket camps in the summer.

It started 45 summers ago as a fairly simple cricket camp for kids from 12 teams. This year, it attracted around 150 teams and 2,000 cricketers in various age-groups from across the country. Together, they played 450-odd games spread across 20 grounds from Napier to Hastings. From Ross Taylor and Williamson to Southey and Tom Latham, there is no cricketer that has not featured in the tournament.

Matthew Sinclair, who scored a double hundred on Test debut, is one among them. "It's a pathway, for sure. I remember one team we had here a few years ago had Doug Bracewell, Kane Williamson and Trent Boult in it," he says. Among others to have played in the camp are Ben Stokes.

Ross Taylor, Will Somerville, Jamie How, Jeetan Patel, Jesse Ryder, Peter McGlashan, Jacob Oram, Sara McGlashan, Amelia Kerr and Sophie Devine. "At one point of time, at least everyone had played this tournament," says Sinclair. And understandably, regional selectors and scouts come flocking.

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305

Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301

Website: www.sirshadilal.com | CIN: L51909UP1933PLC146675

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	3 Months ended		6 Months ended		Year ended
	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from operations	2259.56	8964.65	11896.99	17548.82	46215.43
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	(1140.73)	(1129.10)	(1542.04)	(1738.46)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	(1140.73)	(1129.10)	(1542.04)	(1738.46)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	(845.04)	(1129.10)	(4203.76)	(1738.46)	(918.67)
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(836.27)	(1123.49)	(4179.69)	(1736.54)	(875.35)
Equity share capital	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
Other equity					(16959.57)
Earnings per share of ₹ 10/- each (not annualised for the quarters)					
(a) Basic (in ₹)	(16.10)	(21.51)	(80.07)	(33.11)	(17.50)
(b) Diluted (in ₹)	(16.10)	(21.51)	(80.07)	(33.11)	(17.50)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the website of Company (www.sirshadilal.com).
- The Company has become a subsidiary of Triveni Engineering & Industries Limited ("TEIL") with effect from June 20, 2024 and the control over the Company has changed and now vests with TEIL. The present management has instituted a review of the accounting policies and estimates being presently followed and employed by the Company to ensure that these provide more reliable and relevant information relating to the financial performance and state of affairs of the Company and with a view to align them with those of the peers in the industry. Pursuant thereto, the accounting policy for measurement of land has been changed from revaluation model to cost model in the quarter ended June 30, 2024. The impact of such change on the financial results has been considered retrospectively in accordance with Ind AS 8 'Accounting policies, changes in accounting estimates and errors' and is as under.

(₹ in lakhs)

Particulars	3 Months ended		6 Months ended		Year ended
	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Impact on the items of total comprehensive income:					
Reduction in other comprehensive income	-	-	-	-	37781.55
Impact on the items of balance sheet:					
Reduction in revaluation surplus (other equity)	-	44559.14	-	44559.14	82340.69
Reduction in carrying amount of segment assets (Property, plant and equipment)	-	-	-	-	-
- Sugar	-	30096.43	-	30096.43	55599.59
- Distillery	-	14462.71	-	14462.71	26741.10
	-	44559.14	-	44559.14	82340.69

As a result of the review of other accounting policies, if any further change is identified to be made, the same shall be incorporated in the subsequent quarter(s).

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited

Place: Noida

Date: November 4, 2024

Tarun Sawhney
Chairman & Managing Director

ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए हुआ ओरिएंटेशन वर्कशॉप

पिलपकार्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर किया कार्यक्रम

लखनऊ/एजेंसी। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पिलपकार्ट ने ई-कॉमर्स के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ मिलकर ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया। ई-कॉमर्स के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित इस कार्यशाला में विद्युत राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, पिलपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिस रजनीश कुमार एवं अन्य सम्मानितजन उपस्थित रहे। कार्यशाला को लेकर पिलपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ यह साझेदारी पूरे भारत में डिजिटल समावेश को विस्तार देने की पिलपकार्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा उद्देश्य हरियाणा की ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक अवसर सृजित करना और नई पीढ़ी के उद्यमियों को बढ़ावा देना है, जो अपनी आजीविका को निखारने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। समर्थ प्रोग्राम का लक्ष्य वंचित समुदायों को अवसर प्रदान करना और ई-कॉमर्स का लाभ उठाते हुए सतत आजीविका निर्माण में उन्हें सशक्त बनाना है। इन समुदायों को दिशानिर्देश एवं समर्थन प्रदान करते हुए पिलपकार्ट ग्रामीण उद्यमियों को भारत की व्यापक

विकास गाथा से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। डिजिटल सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कार्यशाला के माध्यम से



70 से अधिक प्रतिभागियों को प्रोडक्ट लिस्टिंग, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक कारोबारी विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इन प्रतिभागियों में महिला उद्यमी, सूक्ष्म उद्यम एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) शामिल रहे। संवाद सत्रों के माध्यम से आर्थिक आजादी को बढ़ावा देने की पिलपकार्ट की प्रतिबद्धता के अनुरूप यह साझेदारी ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से अपनी पहुंच को बढ़ावा देने में पिलपकार्ट समर्थ प्रोग्राम ने निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका 2019 में लॉन्च पिलपकार्ट समर्थ एक देशव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई, कारीगरों और वंचित समुदायों के लिए ई-कॉमर्स के माध्यम से विकास के अवसर सृजित करना है।

इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य स्थानीय वंचित समुदायों एवं उद्यमों को समावेशी एवं राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उन्हें बेहतर आजीविका कमाने में सक्षम बनाना है। राज्यों एवं केंद्र के मंत्रालयों, सरकारी विभागों और देशभर में अन्य इकाइयों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से समर्थ प्रोग्राम में लगातार सहभागिता बढ़ रही है।

पहुंचने और डिजिटल मार्केटप्लेस में विकास करने के लिए टूल्स एवं जरूरी जानकारी प्रदान करते हुए आर्थिक विकास करने में सक्षम बनाना है। भारत में वंचित समुदायों को बढ़ावा देने में पिलपकार्ट समर्थ प्रोग्राम ने निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका 2019 में लॉन्च पिलपकार्ट समर्थ एक देशव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई, कारीगरों और वंचित समुदायों के लिए ई-कॉमर्स के माध्यम से विकास के अवसर सृजित करना है।

इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य स्थानीय वंचित समुदायों एवं उद्यमों को समावेशी एवं राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उन्हें बेहतर आजीविका कमाने में सक्षम बनाना है। राज्यों एवं केंद्र के मंत्रालयों, सरकारी विभागों और देशभर में अन्य इकाइयों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से समर्थ प्रोग्राम में लगातार सहभागिता बढ़ रही है।

यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को नहीं होगा मतदान, चुनाव आयोग अब 20 नवंबर को कराएगा वोटिंग

लखनऊ/एजेंसी। उत्तर प्रदेश समेत पंजाब और केरल में विधानसभा उपचुनाव की तारीख में चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि इन सभी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की वजह से तारीख में बदलाव का यह फैसला लिया है। यूपी में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसाऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसाऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटों विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। वहीं सीसाऊ से इरफान सोलंकी के सजायापता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले 13 नवंबर की तारीख को वोटिंग कराए जाने का ऐलान हुआ था।

नाश्ते में क्या है बेहतर, मीठा और नमकीन किसका है ज्यादा फायदा?



नाश्ता हर इंसान के लिए एक जरूरी भोजन है, जो दिन की शुरुआत में ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। एक अच्छा नाश्ता न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि मूड को भी सेट करता है। सुबह के समय शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और नाश्ता इस जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि नाश्ते में मीठा या नमकीन खाना क्या अधिक फायदेमंद है।

मीठे नाश्ते के फायदे और नुकसान मीठे नाश्ते में आमतौर पर चीनी से बनी चीजें होती हैं, जैसे अनाज, शहद, पैनकेक, फल और मिठाई। मीठा खाना शरीर को तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। जब हम मीठा खाते हैं, तो ग्लूकोज हमारे रक्त में जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिससे तुरंत ऊर्जा मिलती है।

हालांकि, मीठे नाश्ते के कुछ नुकसान भी हैं। सुबह-सुबह मीठा खाने से शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, जिससे थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा, मीठे नाश्ते से मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। अक्सर मीठे नाश्ते में प्रोसेस्ड चीनी का इस्तेमाल होता है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी

होती है। नमकीन नाश्ते के फायदे नमकीन नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, जैसे पोहा, उपमा, इडली, चिल्ला और अंडा सैंडविच। नमकीन नाश्ता धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है।

नमकीन नाश्ते के लाभ ब्लड शुगर कंट्रोल नमकीन नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखते हैं और खाने के बाद ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं और खाने के बाद ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं और खाने के बाद ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं।

नमकीन खाने से फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जो पेट को भरा हुआ रखने में मदद करती है और लंच तक आपको संतुष्ट रखती है। यह आपको अनावश्यक स्नैक्स खाने से भी रोकता है, जिससे कुल कैलोरी का सेवन कम होता है। फाइबर युक्त भोजन पाचन को भी सुगम बनाता है, जिससे आप लंबे

समय तक तृप्ति का अनुभव करते हैं और वजन बढ़ने का खतरा कम होता है।

वजन घटाने में मदद नमकीन नाश्ते में फाइबर और प्रोटीन की अधिकता होती है, जो मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखता है और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। प्रोटीन आपके शरीर को मांसपेशियों का निर्माण करने में मदद करता है, जिससे कैलोरी जलाने की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा, फाइबर आपकी आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जो वजन कम करने की प्रक्रिया को और आसान बनाता है।

नियमित रूप से नमकीन नाश्ता करने से वजन कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यह एक संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है। इसलिए, नाश्ते में मीठा या नमकीन खाना आपकी सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। यदि आप स्वस्थ और संतुलित रहना चाहते हैं, तो नमकीन नाश्ता एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक अच्छे नाश्ते के लिए अपने खान-पान में विविधता लाना और सही सामग्री का चुनाव करना आवश्यक है। आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें और एक स्वस्थ जीवनशैली की ओर कदम बढ़ाएं!

जहीर ने फ्लाइंग में की सोनाक्षी संग मस्ती, अभिनेत्री को पति की 'प्रेम भाषा' ने किया परेशान

इसी साल शादी के बंधन में बंधी फिल्म जगत की दबंग अभिनेत्री सोनाक्षी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अक्सर पति जहीर संग मजेदार पोस्ट शेयर करती रहती हैं। इस बीच अभिनेत्री ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ पति जहीर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया वीडियो फ्लाइंग के अंदर का है, जिसमें सोनाक्षी और जहीर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में सोनाक्षी चेहरे पर मास्क लगाकर सोती नजर आ रही हैं। वहीं, जहीर उनके चेहरे से मास्क हटाकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मास्क हटाते ही सोनाक्षी हंस देती हैं और मजाकिया तौर पर जहीर को मारने का इशारा करती हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सोनाक्षी सिन्हा ने कैप्शन में लिखा जब आप ऐसे आदमी से शादी करते हैं, जिसकी प्रेम भाषा आपको परेशान करना है। सोनाक्षी के वीडियो को उनके प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं और उसपर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

इससे पहले सोनाक्षी ने इंटरनेट पर जहीर संग खूबसूरत तस्वीर शेयर कर प्रशंसकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी थी। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, घर में रोशनी, हर घर में खुशी, आप सब के लिए हमारी यही दुआ। तस्वीरों में सोनाक्षी पति जहीर के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। इस दौरान पति-पत्नी एक-दूसरे को देखकर हंसते नजर आ रहे हैं। इससे पहले सोनाक्षी ने पूकी के साथ तस्वीरें शेयर की थी। तस्वीरों को शेयर कर दबंग अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'पूकी का अंदाजा लगाइए'। अभिनेत्री ने मजेदार कैप्शन के साथ यह फैंसला अपने फॉलोअर्स पर छोड़ दिया कि उनका पूकी कौन है, उनके पति जहीर इकबाल या उनका नया पालतू दोस्त। सोनाक्षी और जहीर ने 7 साल की डेटिंग के बाद 23 जून को मुंबई में



शादी की थी। उनकी पहली मुलाकात बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा आयोजित एक पार्टी में हुई थी। दोनों ने मुंबई में रिसेप्शन दिया था, जिसमें सलमान खान, संजय लीला भंसाली, काजोल, तब्बू, योगी हनी सिंह समेत फिल्म जगत के तमाम सितारों ने शिरकत की थी। जहीर भी एक अभिनेता हैं और उन्होंने 2019 में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। जहीर ने सलमान खान फिल्मस के बैनर तले निर्मित नोटबुक से शुरुआत की थी। इस बीच सोनाक्षी के वर्कफ्रंट की बात कर अभिनेत्री अपने पति के साथ आगामी प्रोजेक्ट तू है मेरी किरण में स्क्रीन साझा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले सोनाक्षी और जहीर फिल्म शबल एक्सप्ल में साथ काम कर चुके हैं। फिल्म में इनके साथ हुमा कुरैशी भी अहम रोल में थीं।



SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305

Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301

Website: www.sirshadilal.com | CIN: L51909UP1933PLC146675

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	3 Months ended		6 Months ended		Year ended
	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from operations	2259.56	8964.65	11896.99	17548.82	46215.43
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	(1140.73)	(1129.10)	(1542.04)	(1738.46)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	(1140.73)	(1129.10)	(1542.04)	(1738.46)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	(845.04)	(1129.10)	(4203.76)	(1738.46)	(918.67)
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(836.27)	(1123.49)	(4179.69)	(1736.54)	(875.35)
Equity share capital	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
Other equity					(16959.57)
Earnings per share of ₹ 10/- each (not annualised for the quarters)					
(a) Basic (in ₹)	(16.10)	(21.51)	(80.07)	(33.11)	(17.50)
(b) Diluted (in ₹)	(16.10)	(21.51)	(80.07)	(33.11)	(17.50)

Notes :

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the website of Company (www.sirshadilal.com).
- The Company has become a subsidiary of Triveni Engineering & Industries Limited ("TEIL") with effect from June 20, 2024 and the control over the Company has changed and now vests with TEIL. The present management has instituted a review of the accounting policies and estimates being presently followed and employed by the Company to ensure that these provide more reliable and relevant information relating to the financial performance and state of affairs of the Company and with a view to align them with those of the peers in the industry. Pursuant thereto, the accounting policy for measurement of land has been changed from revaluation model to cost model in the quarter ended June 30, 2024. The impact of such change on the financial results has been considered retrospectively in accordance with Ind AS 8 'Accounting policies, changes in accounting estimates and errors' and is as under.

(₹ in lakhs)

Particulars	3 Months ended		6 Months ended		Year ended
	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Impact on the items of total comprehensive income:					
Reduction in other comprehensive income	-	-	-	-	37781.55
Impact on the items of balance sheet:					
Reduction in revaluation surplus (other equity)	-	44559.14	-	44559.14	82340.69
Reduction in carrying amount of segment assets (Property, plant and equipment)					
- Sugar	-	30096.43	-	30096.43	55599.59
- Distillery	-	14462.71	-	14462.71	26741.10
	-	44559.14	-	44559.14	82340.69

As a result of the review of other accounting policies, if any further change is identified to be made, the same shall be incorporated in the subsequent quarter(s).

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited

Place: Noida

Date: November 4, 2024

Tarun Sawhney

Chairman & Managing Director

P R HOLDINGS LIMITED CIN: L27310DL1983PLC314402 Regd. Office: R-489, GF-C, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060 Tel: 011-42475489 Website: www.prholding.in Email: prholding1983@gmail.com			
NOTICE			
Pursuant to Listing Agreement(s) with MSEI & CSE, Notice/Intimation is hereby given that Meetings of Remuneration & Nomination Committee & Audit Committee & Board of Directors will be held at its Regd. Office on WEDNESDAY - 13.11.2024 at 12:30 & 01:00 & 01:30 P.M. respectively inter-alia to consider, approve & adopt Un-Audited Financial Results of Quarter & Half-Year ended 30.09.2024 alongwith half-yearly Statement of Assets & Liabilities and Cash Flow Statement as at 30.09.2024, & Limited Review Report from Statutory Auditors, Trading Window in equity shares will remain closed from 01.10.2024 to 17.11.2024 for all insiders. To consider & appoint suitable & competent Company Secretary cum Compliance Officer and Any other matter with the permission of Chair.			
New Delhi 04.11.2024 SAKSHI GUPTA WTD & CFO DIN: 09773654			

शिवालिक बिमेटल्स कंट्रोल लिमिटेड CIN: L27101HP1984PLC065862 पंजीकृत कार्यालय: 18, 18 न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, चम्पावत, गिनी रोड, गिनी रोड - 178218 Phone: +91-11-26027174/26026362 Fax: +91-11-26026776 वेबसाइट: www.shivalikbimetals.com Email: investor@shivalikbimetals.com			
सार्वजनिक सूचना शेयर प्रमाणपत्र गुम होने के लिये			
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अपेक्षित शेयर प्रमाणपत्रों के गुम, स्थानांतरण अथवा चोरी हो जाने की सूचना मिला है तथा पंजीकृत शेयरधारकों ने दुरुलिकृत शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कम्पनी में आवेदन किया है। एतद्वारा आम जनता को किसी भी रूप में उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के आधार पर क्रय अथवा व्यवसाय करने के प्रति सतर्क किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्र के संदर्भ में कोई दावा हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दखिल करें जिसके बाद कम्पनी द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी तथा कम्पनी किसी भी हानि के लिये उत्तरदायी नहीं होगी तथा दुरुलिकृत शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी।			
फॉर्म नं.	प्रमाणपत्र सं.	विलियम सं.	शेयरों की सं.
A000291	81 3581	57501 से 58000 9598201 से 9658700	1000
शिवालिक बिमेटल्स कंट्रोल लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की सूची			
व्यक्ति का नाम	पद	हस्ताक्षर	दिनांक
ह.र. तरुणा गोयल	प्रशासक		
05.11.2024			

फॉर्म-जी	
अभिलेख की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण	
फ्यूचरिस्टिक्स गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (भारतीय दिवाला और शेयर अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36ए उप विनियम (1) के अर्थात्)	
संबंधित विवरण	
1. पेंचरिआईएन/एलएलपी नंबर के साथ कारपोरेट दिनांक का नाम	फ्यूचरिस्टिक्स गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड U18101DL2005PTC137264
2. पंजीकृत कार्यालय का पता	ए-56, इंदिरा नगर, दिल्ली, 110051
3. वेबसाइट का यूआरएल	futuresticsgarments.lbc2016.net
4. उस स्थान का विवरण जहां अधिकार अथवा संबंधित स्थित है	कोई भी अचल संपत्ति पंजीकृत कार्यालय का किसी अन्य स्थान पर स्थित नहीं है।
5. मुख्य उत्पाद/सेवाओं की स्थिति/धर्मता	उत्पन्न/संगठन नहीं
6. पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पाद/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	पिछले वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परिचालन से उत्पन्न मूल्य है।
7. कामगार/कर्मचारियों की संख्या	शून्य
8. दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची का विवरण यूआरएल पर उपलब्ध है।	cirp.futuresticsgarments@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
9. कोड की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रासंगिक उपलब्ध है	cirp.futuresticsgarments@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
10. अभिलेख की अभिव्यक्ति की प्रतिकृति का अंतिम तिथि	20.11.2024
11. प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	30.11.2024
12. अंतिम सूची पर आवेदकों के प्रत्युत्तरण की अंतिम तिथि	05.12.2024
13. कर्तव्य प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	15.12.2024
14. प्रस्ताव आवेदकों से सूचना प्राप्त, मूल्यांकन सारणी, प्रस्ताव योजना हेतु अनुबंध जारी करने की तिथि	05.12.2024
15. प्रस्ताव योजना के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04.01.2025
16. अभिलेख की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ईमेल आईडी	cirp.futuresticsgarments@gmail.com

ह./-

तरुणा गोयल

प्रशासक

मेसर्स फ्यूचरिस्टिक्स गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

पंजीकृत संख्या IBB/IPA-002/IP-NO0314/2017-18/10902

पंजीकृत पता: एन.सी.ओ 1 ए, केबिन नंबर 109, सेक्टर 73, मध्य मार्ग, चंडीगढ़

पत्राचार के लिए ईमेल - cirp.futuresticsgarments@gmail.com

आईडीबीआई के साथ पंजीकृत ईमेल - tarunagoelcs4@gmail.com

तिथि: 05.11.2024

स्थान: चंडीगढ़

मोबाइल: +91 - 9915592699

इंडियन बैंक ALLANBAD		अंचल कार्यालय गुडगाँव, प्लॉट नं. 16, इरकॉन टावर, चौथी मंजिल, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122003	
वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जाती है।			
इंडियन बैंक से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई, जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नवर्णित दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपकी द्वारा सूचना में दर्शायी राशि 60 दिनों के अंदर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियों जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम हैं, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / ई-मेल/सूचना में कर्षादार व गारंटियों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है-			
क्र. सं.	कर्षादार / गारंटर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योरिटी आसियों का विवरण
1	शाखा: बादली 1. मेसर्स ए स्टार होटल और रेस्टूरेट (प्रोपर्टी-श्रीमती पुनम पत्नी श्री रविंदर) (उधारकर्ता) पता: गाँव-सिलाणा, झज्जर, रेवाड़ी रोड शिलाऊ-झज्जर, हरियाणा-124103 2. श्रीमती पुनम पत्नी श्री रविंदर (प्रोपर्टी-उधारकर्ता और बैंककर्ता), पता: वीपीओ-सिलाणा, झज्जर, हरियाणा-124103 3. श्री रविंदर पुत्र श्री कलीधाम (गारंटर), पता: वीपीओ-सिलाणा झज्जर, हरियाणा-124103 ऋण खाता 50431454351 (CC) Term Loan- 50292686069.50430298221.58004618401.7125777350 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 29/08/2024	मांग सूचना की तारीख 22-10-2024 बकाया राशि ₹. 95,47,709/- दिनांक 22.10.2024 तक और दिनांक 23.10.2024 से अर्जित ब्याज साध में मूल्यांकन की तिथि तक बैंक द्वारा अर्जित कानूनी और अन्य प्रभार	प्राथमिक प्रतिभूति: स्टॉक और बुक डेट के साथ प्लॉट और मशीनरी का दृष्टिकोण वाणिज्यिक भूमि और मकान जोकि खेबट सं 410 निम्न का मांग, खाता सं. 436 निम्न, रिवट सं. 88, किला सं. 11/1(2-8) और रिवट सं. 88, किला सं. 15(9-0), 16/2(2-11), एनएच 71-ए, वीपीओ-सिलाणा, झज्जर रेवाड़ी रोड, झज्जर, हरियाणा झज्जर 390225 वर्ग गज, (6 कनाल-9 मरला) यह सम्पत्ति श्रीमती पुनम पत्नी श्री रविंदर के स्वामित्व में कोलेटरल प्रतिभूति: दृष्टिकोण वाणिज्यिक भूमि और मकान जोकि खेबट सं 410 निम्न का मांग, खाता सं. 436 निम्न, रिवट सं. 88, किला सं. 11/1(2-8) और रिवट सं. 88, किला सं. 15(9-0), 16/2(2-11), एनएच 71-ए, वीपीओ-सिलाणा, झज्जर रेवाड़ी रोड, झज्जर, हरियाणा झज्जर 390225 वर्ग गज, (6 कनाल-9 मरला) यह सम्पत्ति श्रीमती पुनम पत्नी श्री रविंदर के स्वामित्व में
उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सनाह है कि (1) अधिक एव विस्तृत जानकारी के लिए अहोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर कर (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि व्याज एवं सर्वे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा कर ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अधिम कार्यवाही से बच सकें। हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(6) के प्रावधानों और उसके तहत वापस गए निधियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित हैं। दिनांक: 22.10.2024, स्थान: बादली, हरि.			

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED	
Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305	
Corp. Office: 8 th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301	
Website: www.sirshadial.com CIN: L51909UP1933PLC146675	

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)					
Particulars	3 Months ended		6 Months ended		Year ended
	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from operations	2259.56	8964.65	11896.99	17548.82	46215.43
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	(1140.73)	(1129.10)	(1542.04)	(1738.46)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	(1140.73)	(1129.10)	(1542.04)	(1738.46)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	(845.04)	(1129.10)	(4203.76)	(1738.46)	(918.67)
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(836.27)	(1123.49)	(4179.69)	(1736.54)	(875.35)
Equity share capital	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
Other equity					(16959.57)
Earnings per share of ₹ 10/- each (not annualised for the quarters)					
(a) Basic (in ₹)	(16.10)	(21.51)	(80.07)	(33.11)	(17.50)
(b) Diluted (in ₹)	(16.10)	(21.51)	(80.07)	(33.11)	(17.50)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the website of Company (www.sirshadial.com).
- The Company has become a subsidiary of Triveni Engineering & Industries Limited ("TEL") with effect from June 20, 2024 and the control over the Company has changed and now vests with TEL. The present management has instituted a review of the accounting policies and estimates being presently followed and employed by the Company to ensure that these provide more reliable and relevant information relating to the financial performance and state of affairs of the Company and with a view to align them with those of the peers in the industry. Pursuant thereto, the accounting policy for measurement of land has been changed from revaluation model to cost model in the quarter ended June 30, 2024. The impact of such change on the financial results has been considered retrospectively in accordance with Ind AS 8 'Accounting policies, changes in accounting estimates and errors' and is as under.

(₹ in lakhs)

(₹ in lakhs)					
Particulars	3 Months ended		6 Months ended		Year ended
	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Sep-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Impact on the items of total comprehensive income:					
Reduction in other comprehensive income	-	-	-	-	37781.55
Impact on the items of balance sheet:					
Reduction in revaluation surplus (other equity)	-	44559.14	-	44559.14	82340.69
Reduction in carrying amount of segment assets (Property, plant and equipment)	-	-	-	-	-
- Sugar	-	30096.43	-	30096.43	55599.59
- Distillery	-	14462.71	-	14462.71	26741.10
	-	44559.14	-	44559.14	82340.69

As a result of the review of other accounting policies, if any further change is identified to be made, the same shall be incorporated in the subsequent quarter(s).

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited

Place: Noida
Date: November 4, 2024

Tarun Sawhney
Chairman & Managing Director

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated October 25, 2024, the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange"), and the Securities and the Exchange Board of India ("SEBI").



PMC FINCORP LIMITED

Our Company was incorporated on February 04, 1985, having CIN L27109UP1985PLC006998 with the name and style of Priti Mercantile Company Limited, and a certificate of incorporation was granted by the Registrar of Companies, U.P., Kanpur. Subsequently, the name of the Company was changed from "Priti Mercantile Company Limited" to its present name i.e. "PMC Fincorp Limited" and a fresh certificate of incorporation was granted by Registrar of Companies, Uttar Pradesh on March 20, 2014. For detailed information on the change of Registered Office please refer to chapter "General Information" on page number 47 of the Letter of Offer.

Registered Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, Uttar Pradesh - 244901, India.
Corporate Office: Flat No. 201 & 202, 2nd Floor, Rattan Jyoti Building, 18, Rajendra Place, New Delhi- 110008, India.
Telephone No.: 011-47631025, 26, 27; Email: contact@pmcfincorp.com; Website: www.pmfincorp.com
Contact Person: Mr. Kailash, Company Secretary, and Compliance Officer
Corporate Identification Number: L27109UP1985PLC006998

PROMOTERS OF OUR COMPANY:
MR. RAJ KUMAR MODI, MS. REKHA MODI, MR. PRABHAT MODI AND M/S RAJ KUMAR MODI HUF

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF PMC FINCORP LIMITED ONLY. ISSUE OF UP TO 17,80,20,400 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 2.75/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 1.75/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 48,95,56,100/- LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON FRIDAY, OCTOBER 25, 2024 (THE "ISSUE"). FOR DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 128 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY		
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATIONS*	ISSUE CLOSES ON#
THURSDAY, NOVEMBER 07, 2024	TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024	TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncers on or prior to the Issue Closing Date.

**Our Board or Right Issue Committee will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of the Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*	Simple, Safe, Smart Way of making an application- Make Use of IT!!!!	*Applications supported by blocked amount (ASBA) are a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check the section on ASBA below.
--------------	---	--

Facilities for Application in this Issue

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circular, and the ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, refer to "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 141 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSEs complying with the requirements of SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSEs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated January 02, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSEs on their own account using ASBA facility, each such SCSE should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSE(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Resident Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialized form, and (ii) a demat suspense escrow account (namely, "PMC FINCORP LIMITED-RIGHTS ISSUE") opened by our Company, for the Resident Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Resident Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings; or (g) Eligible Equity Shareholders who have not provided their Indian addresses.

Additionally, our Company has submitted the details of the total Rights Entitlements credited to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders and the demat suspense escrow account to the Stock Exchange after completing the corporate action. The details of the Rights Entitlements with respect to each Eligible Equity Shareholder can be accessed by such Resident Eligible Equity Shareholders on the website of the Registrar to the Issue i.e., www.skylinetra.com after keying in their respective details along with other security control measures implemented thereon. Rights Entitlements shall be credited to the respective demat accounts of Eligible Equity Shareholders before the Issue Opening Date (i.e. Thursday, November 07, 2024) only in dematerialized form. Further, if no Application is made by the Eligible Equity Shareholders of Rights Entitlements on or before the Issue Closing Date (i.e. Tuesday, November 19, 2024), such Rights Entitlements shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date. No Rights Equity Shares for such lapsed Rights Entitlements will be credited, even if such Rights Entitlements were purchased from the market and the purchaser will lose the premium paid to acquire the Rights Entitlements. Persons who are credited the Rights Entitlements are required to make an application to apply for Rights Equity Shares offered under Issue for subscribing to the Rights Securities offered under Issue.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF THE RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHTS EQUITY SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT APPLICATION FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE AND MAKE PAYMENT OF THE APPLICATION MONEY, FOR FURTHER DETAILS, - PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE-PROCEDURE FOR APPLICATION" ON PAGE 128 OF THE LETTER OF OFFER.

Making of an Application through the ASBA process - Investors desiring to make an Application in this Issue through the ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSEB or online/electronic Application through the website of the SCSEB (if made available by such SCSEB) for authorizing such SCSEB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided authorization to the SCSEB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSEBs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?do=Recognised&pageyes&intmid=34>. For further details, please see "Terms of Issue" on page 128 of the Letter of Offer.

APPLICATION ON PLAIN PAPER:

An Eligible Equity Shareholder who has neither received the Application Form nor is in a position to obtain the Application Form either from our Company, Registrar to the Issue, or from the website of the Registrar, can make an application to subscribe to the issue on plain paper through ASBA process. Eligible Equity Shareholders shall submit the plain paper application to the Designated Branch of the SCSEB for authorizing such SCSEB to block an amount equivalent to the amount payable on the application in the said bank account maintained with the same SCSEB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.

Additionally, in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in this Issue by making plain paper Applications. Please note that Eligible Equity Shareholders making an application in this Issue by way of plain paper applications shall not be permitted to renounce any portion of their Rights Entitlements.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSEB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

- Name of our Issuer, being PMC Fincorp Limited;
- Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
- Registered Folio Number/ DP and Client ID No.;
- Number of Equity Shares held as on Record Date;
- Allotment option preferred - only Demat form;
- Number of Rights Equity Shares entitled to;
- Number of Rights Equity Shares applied for;
- Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any;
- Total number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
- Total amount paid at the rate of ₹ 2.75 per Rights Equity Share;
- Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSEB;
- In case of NR Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account such as the account number, name, address and branch of the SCSEB with which the account is maintained;
- Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to the Issue. Documentary evidence for exemption to be provided by the applicants;
- Authorization to the Designated Branch of the SCSEB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
- Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSEB);
- Additionally, all such Applicants are deemed to have accepted the following:

I/We acknowledge that the Company, their affiliates, and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements.

OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter, any other offering material, and the Issue of Rights Entitlements and the Rights Securities on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India is restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons in whose possession the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, or the Rights Entitlement Letter may come, are required to inform themselves about the restrictions and observe such restrictions.

Our Company is making this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter, and other Issue material only to email addresses of Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company and who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Entitlement or Rights Securities is permitted under laws of such jurisdictions and does not result in and may not be construed as, a public offering in such jurisdictions. In case the Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Issue material will be sent only to their valid e-mail address, and in case the Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Investors can also access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, and the Application Form from the websites of the Registrar to the Issue, our Company, SEBI, and the Stock Exchange.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: THE RIGHTS ENTITLEMENTS AND THE RIGHTS EQUITY SHARES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT, 1933, AS AMENDED ("SECURITIES ACT"), OR ANY U.S. STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, RES